

नए साल के प्रथम दिन



नए साल 2021 New Year Eve 2021

आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष के पहले दिन में सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देने का एक अलग ही महत्व है। यह दिन एक अच्छा और नया करने का दिन होता है। ऐसे में नव वर्ष पर शुभकामनाएं संदेश भेजने से एक सकारात्मक एहसास होता है। जीवन में मोटिवेशन लाता है। यह वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी सफलता और खुशियां लेकर आये।

इस दिन विश्व में हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर से भरा होता है। भारत के साथ-साथ विश्व के सभी देश नए साल के शुरुवात पर जश्न मनाते हैं और परियजनों के साथ मलि कर इस दिन का मजा उठाते हैं।

लोग इस दिन गाना गाते हैं, तरह-तरह के खेल खेलते हैं। शहरों की बाट-तो छोड़े गांव में भी लोग पकिनकि मनाने जाते हैं। 31 दिसम्बर की रात के 12 बजे, नए साल से एक दिन पहले लोग जश्न मनाते हैं। खूब सारे पटाखे भी फोड़ते हैं।

नए साल के प्रथम दिन क्या करे क्या न करे - What to do or not to do on the first day of the new year?

लोग एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और कुछ लोग ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, गफिट देते हैं और साथ मलिकर पार्क या घूमने भी जाते हैं इस दिन हर कोई व्यक्ति जीवन में एक नई और अच्छी शुरुवात करने की सोचते हैं। कुछ लोग अपने परिवार मतिरो के साथ घर में मलिकर पार्टी करते हैं तो कुछ लोग बाहर घूमने जाते हैं। यह सब समारोह बस इसलिए होते हैं ताकि हम बीते हुए साल को हसते-हसते वदि कर सकें और हसते-हसते ढेर सारी खुशियों, उमगों और नयी आशाओं के साथ नए वर्ष का स्वागत कर सकें।

क्या है नव वर्ष की पौराणिक कथा और महत्व - What is the mythology and significance of the new year?

नव वर्ष को बहुत पौराणिक काल से मनाया जाता आ रहा है। यहां एक ऐसा समय होता है जब विश्व के हर क्षेत्र में खुशियां ही खुशियां दखिती हैं। नव वर्ष को पहली बार बेबीलोन वासियों ने सबसे लंबे समय 11 दिन के लिए मनाना शुरू किया था। क्या आपको पता है नववर्ष को चंद्रमा और सूर्य के अनुसार भी मनाया जाता है। जूलियन कैलेंडर में प्रथम बार जानने के बाद ही जनवरी एक को नव वर्ष के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाने लगा।

इस वर्ष का पहला जनवरी महीना ही वह महीना है जो आपको आपकी सफलता दिला सकता है इसलिए बिना रुके अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दें। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारी सोच होती है क्योंकि काम करने के बजाए ज्यादातर समय हम सोचते

ही रहते हैं जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अब सोचना बंद करें और काम शुरू करें।

नया साल एक नई शुरुआत को दर्शाता है और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है। पुराने साल में हमने जो भी किया, सीखा, सफल या असफल हुए उससे सीख लेकर, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

नए साल के दिन पुरे वर्ष के दिन का अपने लिए लक्ष्य बनाए जैसा कमिकान बनाना,वाहन लेना, शादी करना चाहते है। कुछ लोग अपनी कमियाँ और बुराई को भी छोड़ना चाहते है और यह नए वर्ष मे पछिले वर्ष से नए वर्ष को अच्छा हो, यह चाहते है। पुरे साल की प्लान करते है जिसके मतिरो, परिवार जनो से, ज्योतषि और सलाहकारों से सलाह महस्वारा करते है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमारे ज्योतषियों से सलाह ले सकते है।

[Call Certified Astrologers instantly on Dial199 - India's #1 Talk to Astrologer Platform.](#)

[Expert Live Astrologers. 100% Genuine Results.](#)

[Read On Website](#)